



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 कार्तिक, 1940 (श०)

---

संख्या- 1021 राँची, गुरुवार, 8 नवम्बर, 2018 (ई०)

---

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

-----  
अधिसूचना

2 नवम्बर, 2018 ई०।

**संख्या-05/सी०सी०ए०-01/90/2017- 6063--** चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि राँची जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा-12 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के राँची जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा-12 (2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी तीन माह तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय,  
सरकार के अवर सचिव।